

M.A. (Part—II) Examination
ECONOMICS
(Financial Institutions and Markets)
Paper—VII

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

Note :—(1) Attempt all **FIVE** questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. What is meant by Financial Intermediaries ? Explain the role of financial Intermediaries institutions in economic development.

OR

What are the functions of financial sector ? Explain the criteria of evaluating financial sector and financial development.

2. (a) What is meant by interest rates ?
 (b) Explain the liquidity preference motive.
 (c) Differentiate between deposit rates and administrated interest rates.
 (d) Explain IS Curve.

OR

- (e) Explain the concept liquidity trap.
 (f) What are the factors of demand of loanable funds ?
 (g) Explain LM Curve.
 (h) Explain the various interest rates in India.
3. (a) What are the objectives of Monetary Policy ?
 (b) State the role of Central Bank as Banker's Bank.
 (c) What are the prime investment institutions in India ?
 (d) Explain the effectiveness of Monetary Policy for credit control.

OR

- (e) Explain the concept of Bank Rate.
 (f) What are the functions of Development Bank ?
 (g) Give the qualitative measures of credit control.
 (h) Differentiate between Central and Commercial Bank.
4. What is meant by Non-Bank Financial Institute ? Explain the role of NBFC in economic development in India.

OR

Critically examine SEBI's impact on the working of Capital Market in India.

5. (a) What is multiple-exchange rates ?
 (b) Explain the functions of Asian Development Bank.
 (c) Explain the role of International Monetary Fund with reference to India.
 (d) State the lending operations of World Bank.

OR

- (e) What are the objectives of devaluation ?
 (f) Explain the importance of International Liquidity.
 (g) State the objectives of International Financial Co-operation.
 (h) Explain the causes of changes in exchange rate.

M.A. (Part—II) Examination
ECONOMICS
(Financial Institutions and Markets)
Paper—VII

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

(मराठी माध्यम)

नोट :—(1) सर्व पाचही प्रश्न सोडवा
 (2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. वित्तीय मध्यस्थ म्हणजे काय ? आर्थिक विकासामध्ये वित्तीय मध्यस्थ संस्थांची भूमिका स्पष्ट करा.

किंवा

वित्तीय क्षेत्राची कार्ये काय आहेत ? वित्तीय क्षेत्र आणि वित्तीय विकासाच्या मुल्यांकनाच्या कसोट्या स्पष्ट करा.

2. (अ) व्याजदर म्हणजे काय ?
 (ब) रोखतेच्या अभिलाषेचे हेतू स्पष्ट करा.
 (क) ठेविवरित व्याजदर व प्रशासकीय व्याजदर यातील फरक स्पष्ट करा.
 (ड) IS वक्र स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) रोखतेच्या साकळ्याची संकल्पना स्पष्ट करा.
 (फ) ऋणयोग्य निधीच्या मागणीचे घटक कोणते आहेत ?
 (ग) LM वक्र स्पष्ट करा.
 (ह) भारतातील विविध व्याजदर स्पष्ट करा.

3. (अ) मौद्रिक धोरणाचे उद्देश कोणते आहेत ?
 (ब) 'अधिकोषांचा अधिकोष' म्हणून केंद्रीय अधिकोषाची भूमिका स्पष्ट करा.
 (क) भारतात कोणत्या प्रमुख गुंतवणुक संस्था आहेत ?
 (ड) प्रत्यय नियंत्रणाच्या मौद्रिक धोरणाची परिणामकारकता स्पष्ट करा.

किंवा

- (इ) अधिकोष दराची संकल्पना स्पष्ट करा.
 (फ) विकास अधिकोषाची कार्ये कोणती आहेत ?
 (ग) प्रत्यय नियंत्रणाची गुणात्मक साधने द्या.
 (ह) केंद्रीय अधिकोष व व्यापारी अधिकोष यातील फरक स्पष्ट करा.

4. अधिकोषेतर वित्तीय संस्था म्हणजे काय ? भारताच्या आर्थिक विकासात अधिकोषेतर वित्तीय संस्थांची भूमिका स्पष्ट करा.

किंवा

भारतीय भांडवली बाजाराच्या परिचलनावर सेबी (SEBI) च्या प्रभावाचे टिकात्मक परिक्षण करा.

5. (अ) बहुविध विनिमय दर म्हणजे काय ?
 (ब) आशियाई विकास अधिकोषाची कार्ये स्पष्ट करा.
 (क) भारताच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीची भूमिका स्पष्ट करा.
 (ड) जागतिक अधिकोषाचे ऋणदान कार्ये सांगा.

किंवा

- (इ) अवमूल्यनाचे कोणते उद्देश आहेत ?
 (फ) आंतरराष्ट्रीय तरलतेचे महत्त्व स्पष्ट करा.
 (ग) आंतरराष्ट्रीय वित्त निगमाची उद्दिष्टे सांगा.
 (ह) विनिमय दरात बदल होण्याची कारणे स्पष्ट करा.

**M.A. (Part—II) Examination
ECONOMICS
(Financial Institutions and Markets)
Paper—VII**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

(हिन्दी माध्यम)

नोट :—(1) सभी पाँच प्रश्न हल कीजिये।

(2) सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

1. वित्तीय मध्यस्थ का आशय क्या है ? आर्थिक विकास में वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

अथवा

वित्तीय क्षेत्र के कार्य कौनसे हैं ? वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय विकास के मूल्यांकन की कसौटियों को स्पष्ट कीजिये।

2. (अ) ब्याजदर की अवधारणा क्या है ?
(ब) रोखता अभिलाषा के हेतु स्पष्ट कीजिये।
(क) ठेव पर ब्याजदर और प्रशासकीय ब्याजदर में भेद स्पष्ट कीजिये।
(ड) IS वक्र को स्पष्ट कीजिये।

अथवा

- (इ) रोखता जाल की अवधारणा स्पष्ट कीजिये।
(फ) ऋणयोग्य निधी के मांग के कारक कौनसे हैं ?
(ग) LM वक्र को स्पष्ट कीजिये।
(ह) भारत में विभिन्न ब्याजदर विशद कीजिये।

3. (अ) मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं ?
(ब) बैंकों की बैंक के संदर्भ में केंद्रीय बैंक की भूमिका विशद कीजिये।
(क) भारत में कौनसी प्रमुख निवेश संस्थाएं हैं ?
(ड) प्रत्यय नियमन के मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता विशद कीजिये।

अथवा

- (इ) बैंक दर की अवधारणा स्पष्ट कीजिये।
(फ) विकास बैंक के कार्य कौनसे हैं ?
(ग) प्रत्यय नियमन के गुणात्मक साधन दीजिये।
(ह) केंद्रीय बैंक और व्यापारी बैंक में अंतर बताइये।

4. बैंकेतर वित्तीय संस्था का आशय क्या है ? भारत के आर्थिक विकास में बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की भूमिका विशद कीजिये।

अथवा

भारतीय पूंजी बाजार के परिचालन पर सेबी (SEBI) के प्रभावों का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिये।

5. (अ) बहुविध विनिमय दर का आशय क्या है ?
(ब) आशियाई विकास बैंक के कार्य स्पष्ट कीजिये।
(क) भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की भूमिका विशद कीजिये।
(ड) विश्व बैंक के ऋणदान कार्य बताइये।

अथवा

- (इ) अवमूल्यन के उद्देश्य कौनसे हैं ?
(फ) अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व बताइये।
(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम के उद्देश्य बताइये।
(ह) विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण बताइये।

